



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 1981/फाल्गुन 18, 1902

No.9 9]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 1981/PHALGUNA 18, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

विकास आयुक्त (श्रीधर) का कार्यालय

आवेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1981

का० आ० 152 (अ):—केन्द्रीय सरकार, श्रीधर (कीमती निर्यात) प्रादेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) की अधिनियमता सं० का० आ० 71 (अ), तारीख 21 जनवरी, 1981 का अधिष्ठात करने हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविवक्षित कीमत को उस अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की न्यूनतम प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्वदेशी विनिर्भर प्रपञ्च औषधियों में से प्रत्येक का विक्रय किया जाएगा :

सारणी

| क्रम सं० | प्रपञ्च औषधि का नाम | अधिकतम विक्रय कीमत रु० प्रति प्र० यू० |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | पोटासियम पेनिसिलीन जी | 533.00 |
| 2. | पोटासियम पेनिसिलीन जी | 692.00 |
| 3. | पोटासियम पेनिसिलीन जी | 819.00 |
| 4. | सोडियम पेनिसिलीन जी | 846.00 |
| 5. | प्रोकाइन पेनिसिलीन जी | 813.00 |

[सं० 9 (73)/80-श्रीधर-II]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(DRUGS)

ORDERS

New Delhi, the 9th March, 1981

S.O. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers), No. S.O. 71(E), dated, the 24th January, 1981, the Central Government hereby fixes the price as specified in column (3) of the Table below as the maximum price at which each of the indigenously manufactured bulk drug, specified in the corresponding entry in column (2) thereof shall be sold:

TABLE

| Sl. No. | Name of the Bulk Drug | Maximum sale price Rs. per BU |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Potassium Penicillin G First Crystals | 533.00 |
| 2. | Potassium Penicillin G | 692.00 |
| 3. | Potassium Penicillin V | 819.00 |
| 4. | Sodium Penicillin G | 846.00 |
| 5. | Procaine Penicillin G | 813.00 |

[No. 9 (73)/80: Drug-II]

का० आ० 153 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 844 (अ), तारीख, 9 अक्टूबर, 1980 को अधिष्ठात करने हुए, 183.14 रु० प्रति कि० ग्रा० को उस अधिकतम विपण्य कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर स्वदेश विनिर्मित प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड का विक्रय किया जाएगा।

[सं० 8(3)/78-औषधि-II]

S.O. 153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers), No. S.O. 844(E), dated the 9th October, 1980, the Central Government hereby fixes Rs. 183.14 per kg. as the maximum sale price at which Procaine Hydrochloride manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(3)/78-Drug-III]

का० आ० 154 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1271.00 रु० प्रति कि० ग्रा० को उस अधिकतम विपण्य कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर स्वदेश विनिर्मित पेनिसिलीन का विक्रय किया जाएगा।

[सं० 8(65)/80-औषधि-II]

S.O. 154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes Rs. 1271.00 per kg. as the maximum sale price at which Benzathine Penicillin manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(65)/80-Drug-II]

का० आ० 158 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 5 में यथाविनिर्दिष्ट कीमतों को, जिनमें उत्पादगुणक, और स्थायी कर, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं है उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक निमित्त को, जिसकी प्रकृति और पैक आकार को उसके स्तम्भ 3 और 4 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है, अग्रणी कीमत के रूप में नियत करती है :

सारणी

| क्रम सं० | विनिर्दिष्ट का नाम | प्रकृति | पैक आकार | अग्रणी कीमत (रु०) |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रवर्ग I विनिर्दिष्टियाँ : | | | | |
| 1. | एस्पिरिन टेबलेट | 300 मिग्रा०/टेबलेट | 1000 बाली टिन/बोतल | 25.42 |
| 2. | डाइगोक्सिन टेबलेट | 0.25 मिग्रा०/टेबलेट | 20 बाली पट्टी/बोतल | 1.94 |
| 3. | डाई-आर्द्धो-हाइड्रोक्सी-क्विनोलीन टेबलेट | 300 मिग्रा०/टेबलेट | 10 बाली पट्टी/बोतल | 1.54 |
| प्रवर्ग II विनिर्दिष्टियाँ : | | | | |
| 1. | डाई-इथाइल कार्बोक्सीन साइट्रेट टेबलेट | 50 मिग्रा०/टेबलेट | 10 बाली पट्टी/बोतल | 0.53 |
| 2. | क्लोरेम्फेनिकाल मिश्रण सिरप (जिसमें क्लोरेम्फेनिकाल पामिटेट समाविष्ट होगा) | 125 मिग्रा०/4 मि० ली० | 450 मि०ली० बोतल | 43.69 |
| 3. | (क) स्ट्रेप्टोमाइसिन कैप्सूल के मिश्रण सहित क्लोरेम्फेनिकाल | 125 मिग्रा० | 10 बाली पट्टी/बोतल | 4.17 |
| | | क्लोरेम्फेनिकाल 125 मिग्रा० | 50 बाली टिन/बोतल | 20.72 |
| | | स्ट्रेप्टोमाइसिन/कैप्सूल | 100 बाली टिन/बोतल | 37.73 |
| | | | 1000 बाली टिन/बोतल | 362.41 |
| | (ख) स्ट्रेप्टोमाइसिन मिश्रण सिरप के मिश्रण सहित क्लोरेम्फेनिकाल | 125 मिग्रा० क्लोरेम्फेनिकाल 125 मिग्रा० | 450 मि०ली० बोतल | 53.49 |
| | | स्ट्रेप्टोमाइसिन/5मि०ली० | | |

[सं० 9(39)/80-औषधि-II]

का० आ० 155 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 195 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 1979 के आदेश का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में,—

1. प्रवर्ग-I विनिर्दिष्टियाँ शीर्षक के अधीन क्रम सं० 1, 2, 5, 13क और 15 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।

2. प्रवर्ग-II विनिर्दिष्टियाँ शीर्षक के अधीन क्रम सं० 1, 2, 6, 8, 10, और 14 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।

[सं० 9(39)/80-औषधि-II]

S.O. 155(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India, in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 195(E), dated, the 2nd April 1979, namely:—

In the Table annexed to the said Order—

1. Under the heading, Category I formulations, Serial No.1, Serial No. 2, Serial No. 5, Serial No. 13(a) and Serial No. 15 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. Under the Heading Category II formulations, Serial No. 1, Serial No. 2, Serial No. 6, Serial No. 8, Serial No. 10 and Serial No. 14 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 9(39)/80-Drug-II]

S.O.156(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column 5 of the Table hereto annexed as the leader price exclusive of Excise Duty and local taxes, if any, of each of the formulation specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entry, in columns 3 and 4 thereof :

TABLE

| Sl. No. | Name of the formulation | Strength | Pack Size | Leader Price (Rupees) |
|---------------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CATEGORY I FORMULATIONS | | | | |
| 1. | Aspirin Tablets | 300mg/Tab | 1000's Tin/Bottle | 25.42 |
| 2. | Digoxin Tablets | 0.25mg/Tab | 20's Strip/Bottle | 1.94 |
| 3. | Di-iodo-hydroxyquinoline Tablets | 300mg/Tab | 10's Strip/Bottle | 1.54 |
| CATEGORY II FORMULATIONS | | | | |
| 1. | Diethyl Carbamazine Citrate Tablets | 50mg/Tab | 10's Strip/Bottle | 0.53 |
| 2. | Chloramphenicol Suspension Syrup (containing Chloramphenicol Palmitate) | 125mg/4ml | 450ml Bottle | 43.69 |
| 3. (a) | Chloramphenicol in combination with Streptomycin Capsules | 125mg Chloramphenicol/ 125mg Streptomycin/ Capsules | 10's Strip/Bottle 50's Tin/Bottle 100's Tin/Bottle 1000's Tin/Bottle | 4.17 20.72 37.73 362.41 |
| (b) | Chloramphenicol in combination with Streptomycin suspension/syrup | 125 mg Chloramphenicol 125mg Streptomycin/ 5ml | 450ml Bottle | 53.49 |

[No. 9(39)/80-Drug. II]

का० अ० 157(अ) — केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपासक सारणी के स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट कीमतों को, जिनमें उत्पादशुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विनिर्दिष्ट को, जिसकी प्रबलता और पैक आकार को उक्त सारणी के स्तम्भ 3 और 4 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है, अग्रणी कीमत के रूप में नियत करती है :

सारणी

| क्रम सं० | विनिर्दिष्ट का नाम | प्रबलता | पैक आकार | अग्रणी कीमत (रु०) |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रकार I विनिर्दिष्टियाँ | | | | |
| 1 | एस्पिरिन टेबलेट | 300 मि०ग्रा० प्रति टेबलेट | 10 बाली पट्टी/बोतल 1500 बाली बोतल | 0.45 32.10 |
| 2 | डाइगोक्सिन टेबलेट | 75 मिग्रा०/टेबलेट 0.25 मिग्रा०/टेबलेट | 10 बाली पट्टी 10 बाली पट्टी/बोतल 10×10 बाली पट्टी 500 बाली टिन/बोतल | 0.45 0.97 9.74 41.26 |
| | | 0.0625 मिग्रा०/टेबलेट | 50 बाली टिन/बोतल | 2.42 |
| 3. | हाइड्रोक्सीक्वियनाजोएड टेबलेट | 25 मिग्रा०/टेबलेट 50 मिग्रा०/टेबलेट | 10×10 बाली पट्टी 10×10 बाली पट्टी | 4.20 5.60 |
| 4. | स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन | 0.75 ग्रा० ग्रेस/बायल 1 ग्रा० ग्रेस/बायल | 1 बायल 1 बायल | 1.37 1.67 |
| 5. | हाइ-आइड्रो-हाइड्रोक्सी/मिनोसिन टेबलेट | 300 मिग्रा०/टेबलेट | 1000 बाली टिन/बोतल | 113.57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------------|---------------------|--------|---|
| श्रेणी II विनिर्दिष्टियाँ : | | | | |
| 1. एनलजीन टेबलेट | 500 मिग्रा०/टेबलेट | 10 × 10 बाली पट्टी | 22.74 | |
| | | 1000 बाली टिन/बोतल | 183.97 | |
| 2. प्रोप्रॉपिनॉल टेबलेट | 200 मिग्रा०/टेबलेट | 10 बाली पट्टी | 2.03 | |
| | | 25 × 10 बाली पट्टी | 48.39 | |
| 3. डाइएथिल कार्बामाजीन साइट्रेट टेबलेट | 50 मिग्रा०/टेबलेट | 1000 बाली टिन/बोतल | 24.47 | |
| | 100 मिग्रा०/टेबलेट | 10 × 10 बाली पट्टी | 5.94 | |
| | | 100 × 10 बाली पट्टी | 54.99 | |
| | | 1000 बाली टिन/बोतल | 39.65 | |
| 4. (क) फ्लूमेडाइड टेबलेट | 40 मिग्रा०/टेबलेट | 10 × 10 बाली पट्टी | 11.98 | |
| | | 25 × 10 बाली पट्टी | 29.28 | |
| (ख) फ्लूमेडाइड इंजेक्शन | 10 मिग्रा०/मिली० | 10 एम्प × 2 मि०ली० | 8.45 | |
| | | 100 एम्प × 2 मि०ली० | 75.02 | |
| 5. बेलाइल सल्फाथिमाजोल टेबलेट | 500 मिग्रा०/टेबलेट | 10 बाली पट्टी | 2.25 | |
| | | 1000 बाली टिन/बोतल | 193.98 | |
| 6. मल्फाक्वामिडाइन टेबलेट | 500 मिग्रा०/टेबलेट | 10 बाली पट्टी/बोतल | 2.11 | |
| | | 50 × 10 बाली पट्टी | 105.45 | |
| | | 1000 बाली टिन/बोतल | 180.85 | |

[सं० 9(39)/80-प्रोपधि-II]

S.O. 157 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of Paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices specified in column 5 of the Table hereto annexed as the revised leader prices exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulation specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entry in columns 3 and 4 thereof :

TABLE

| Sl. No. | Name of the formulations | Strength | Pack size | Leader Price (Rupees) |
|--|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CATEGORY I FORMULATIONS | | | | |
| 1. Aspirin Tablets | 300 mg Per Tab | 10's Strip/Bottle | 0.45 | |
| | 75 mg | 1500's Tin/Bottle | 32.10 | |
| | 75 mg/Tab | 10's Strip | 0.45 | |
| 2. Digoxin Tablets | 0.25 mg/Tab | 10's Strip/Bottle | 0.97 | |
| | | 10 × 10's Strip | 9.74 | |
| | | 500's Tin/Bottle | 41.26 | |
| | 0.0625mg/Tab | 50's Tin/Bottle | 2.42 | |
| 3. Hydrochlorthiazide Tablets | 25mg/Tab | 10 × 10's strip | 4.20 | |
| | 500 mg/Tab | 10 × 10's Strip | 5.60 | |
| 4. Streptomycin Injection | 0.75 mg/base/Vial | 1 Vial | 1.37 | |
| | 1 gm base/Vial | 1 Vial | 1.67 | |
| 5. Di-iodo-hydroxyquinoline Tablets | 300mg/Tab | 1000's Tin/Bottle | 113.57 | |
| CATEGORY II FORMULATIONS | | | | |
| 1. Analgin Tablets | 500mg/Tab | 10 × 10's Strip | 22.74 | |
| | | 1000's Tin/Bottle | 183.97 | |
| 2. Amodiaquin Tablets | 200mg/Tab | 10's Strip | 2.03 | |
| | | 25 × 10's Strip | 48.39 | |
| 3. Diethyl Carbamazine Citrate Tablets | 50mg/Tab | 1000's Tin/Bottle | 24.47 | |
| | 100mg/Tab | 10 × 10's Strip | 5.94 | |
| | | 100 × 10's Strip | 54.99 | |
| | | 1000's Tin/Bottle | 39.65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|-----------|-------------------|--------|---|
| 4. (a) Frusemide Tablets | 40mg/Tab | 10 × 10's Strip | 11.98 | |
| | | 25 × 10's Strip | 29.28 | |
| (b) Frusemide Injection | 10mg/MI | 10 amp × 2ml | 8.45 | |
| | | 100 amp × 2ml | 75.02 | |
| 5. Phthalyl Sulphathiazole Tablets | 500mg/Tab | 10's Strip | 2.25 | |
| | | 1000's Tin/Bottle | 193.98 | |
| 6. Sulphoimidine Tablets | 500mg/Tab | 10's Strip/Bottle | 2.11 | |
| | | 50 × 10's Strip | 105.45 | |
| | | 1000's Tin/Bottle | 180.85 | |

[No. 9(39)/80-Drug. II]

का० आ० 158 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियन्त्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 37 (अ) तारीख 16 जनवरी, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त आदेश की माग्नी में क्रम सं० 3, 4, 5 और 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

| क्रम सं० | प्रपूज औषधि का नाम | अधिकतम कीमत (रु० प्रति कि० ग्राम) |
|----------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 3. पी० ए० एस० सोडियम | | 99.92 |
| 4. पी० ए० एस० अम्ल | | 105.34 |
| 5. कैल्शियम पी० ए० एस० | | 127.20 |
| 6. कैल्शियम बी० पी० ए० एस० | | 100.40 |

[सं० 8(53)/80-औषधि-II]

आर० एन० दाम, उपसचिव

S.O. 158(E).—In exercise of the powers conferred by sub paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 37(E), dated the 16th January, 1981, namely:—

In the said Order in the Table for serial Nos. 3, 4, 5 and 6 and the entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely:—

| Sl. No. | Name of the bulk drug | Maximum Price (Rs. per Kilogram) |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | PAS Sodium | 99.92 |
| 4. | PAS Acid | 105.34 |
| 5. | Calcium PAS | 127.20 |
| 6. | Calcium B PAS | 100.40 |

[No. 8(53)/80-Drug. II]

R.N. DAS, Dy. Secy.

